



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 19, 2019/ज्येष्ठ 29, 1941

No. 365]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 19, 2019/JYAISTHA 29, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2019

सा.का.नि. 434(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में सहायक क्रय अधिकारी, क्रय अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंधक (संचालन) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, सहायक क्रय अधिकारी, क्रय अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंधक (संचालन) समूह 'क' और समूह 'ख' के पद भर्ती नियम 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना .- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. प्रारंभिक गठन.— ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को नियुक्ति आधार पर भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में सहायक क्रय अधिकारी, क्रय अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंधक (संचालन) का पद धारण कर रहे हैं, इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व नियमित आधार पर उक्त पद पर उनके द्वारा की गई सेवाओं को अगले उच्चतर श्रेणी में परीक्षा पुष्टिकरण, ज्येष्ठता और प्रोन्नति के प्रयोजनों के लिए गणना में लिया जाएगा।

6. निरर्हता - वह व्यक्ति.

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है

(ख) जिसने, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध किया जाना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सहायक क्रय अधिकारी।	1* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-1,12,400/-रु)	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा

(6)

30 वर्ष से अनधिक

टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।

(7)

आवश्यक:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री।

(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों में प्रबंधकीय क्षमता में सामग्री प्रबंधन में दो वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यवसाय अध्ययन या लोक प्रशासन में स्नातक डिग्री।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा।

टिप्पण-1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण-2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष।	<p>सीधी भर्ती द्वारा :-</p> <p>टिप्पण-1:- पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी -</p> <p>(क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पण-2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(i) निदेशक, भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र - अध्यक्ष;</p> <p>(ii) असिस्टेंट प्रोफेसर, भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र - सदस्य;</p> <p>(iii) प्रशासनिक अधिकारी, भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र - सदस्य।</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. क्रय अधिकारी।	1* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47600-151100/-रु)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति द्वारा (प्रतिनियुक्ति जिसमें अंतिम अल्पकालिक संविदा भी है/ प्रोन्नति)

(11)	
<p>संयुक्त पद्धति द्वारा (प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है/ प्रोन्नति):</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी: -</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुये हैं; या</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 / रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:</p> <p>आवश्यक :-(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री।</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों में प्रबंधकीय क्षमता में सामग्री प्रबंधन में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय:-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यवसाय अध्ययन या लोक प्रशासन में स्नातक डिग्री।</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा।</p> <p>टिप्पण 1:- ऐसे सहायक क्रय अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 / रु.) में उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है, और प्रतिनियुक्ति के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव सहित बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जा सकता है। यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भर लिया गया समझा जाएगा।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. वरिष्ठ प्रबंधक (संचालन)।	1* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67700-208700/-रु)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति के लिए दो वर्ष।	संयुक्त पद्धति द्वारा (प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है/ प्रोन्नति)

(11)	
<p>संयुक्त पद्धति द्वारा (प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है/ प्रोन्नति):</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी: -</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुये हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500/-रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:</p> <p>आवश्यक :-(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री।</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों में प्रबंधकीय क्षमता में सामग्री प्रबंधन में पाँच वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय:-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यवसाय अध्ययन या लोक प्रशासन में स्नातक डिग्री।</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा।</p> <p>टिप्पण 1: ऐसे क्रय अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -8 (47600-151100/रु.) में उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है, और प्रतिनियुक्ति के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव सहित बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जा सकता है। यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भर लिया गया समझा जाएगा।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

[फा. सं. एस-11014/40/2018-एचआर]

विनोद कुमार, उप सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health Research)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th June, 2019

G.S.R. 434(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Purchase Officer, Purchase Officer and Senior Manager (Operations) in the Bhopal Memorial Hospital and Research Centre, Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Bhopal Memorial Hospital and Research Centre, Assistant Purchase Officer, Purchase Officer and Senior Manager (Operations) Group 'A' and Group 'B' posts Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.- These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix or pay scale.- The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Initial constitution.- The incumbents presently holding the posts of Assistant Purchase Officer, Purchase Officer and Senior Manager (Operations) in the Bhopal Memorial Hospital and Research Centre on regular basis after appointment thereto on the date of the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under the provisions of these rules to the corresponding post mentioned in the said Schedule and the services rendered by them in the said post on regular basis before such commencement shall be taken into account for the purposes of probation, confirmation, seniority and promotion to the next higher grade.

6. Disqualification. - No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Assistant Purchase Officer.	1* (2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-B, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400/-).	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for Direct Recruits.
(6)	(7)
Not exceeding 30 years Note-1.- Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note-2.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam,	Essential:- (i) Bachelor Degree in any discipline from a recognised University. (ii) Two years' experience in Material Management in managerial capacity in Central Government or State Government or Union territory Administration or recognised research institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Statutory or autonomous organizations. Desirable:- (i) Bachelors' Degree in Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration from a recognised University.

Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	<p>(ii) Diploma in Material Management from a recognised University or Institute.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years.	<p>By direct recruitment</p> <p>Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:</p> <p>(a) holding analogous post on regular basis; and</p> <p>(b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(11)
Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Group-B Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -</p> <p>(I) Director, Bhopal Memorial Hospital and Research Centre-Chairman;</p> <p>(II) Assistant Professor, Bhopal Memorial Hospital and Research Centre - Member;</p> <p>(III) Administrative Officer, Bhopal Memorial Hospital and Research Centre Member.</p>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Purchase Officer.	1* (2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-B, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100/-).	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By composite method (Deputation including Short Term Contract / Promotion)

(11)
<p>By composite method (Deputation including Short Term Contract /Promotion):</p> <p>Officers under the Central Government or State Government or Union territory Administration or recognised research institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Statutory or autonomous organizations:-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level- 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400/-) in the parent Cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>Essential:-(i) Bachelors' Degree in any discipline from a recognised University. (ii) Two years' experience in Material Management in managerial capacity in Central Government or State Government or Union territory Administration or recognised research institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Statutory or autonomous organizations.</p> <p>Desirable:-</p> <p>(i) Bachelors' Degree in Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration from a recognised University.</p> <p>(ii) Diploma in Material Management from a recognised University or Institute.</p> <p>Note 1: Assistant Purchase Officer in the level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400/-) with six years of regular service in the grade and having the educational qualification and experience prescribed for deputationists is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post it shall be treated as having been filled by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Senior Manager (Operations).	1* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-A, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700/-).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotes.	By composite method (Deputation including Short Term Contract /Promotion)

(11)
<p>By composite method (Deputation including Short Term Contract / Promotion):</p> <p>Officers under the Central Government or State Government or Union territory Administration or recognised research institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Statutory or autonomous organisations:-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level- 10 in the pay matrix (Rs.56100-177500/-) in the parent Cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>Essential:-(i) Bachelors' Degree in any discipline from a recognised University.</p> <p>(ii) five years' experience in Material Management in managerial capacity in Central Government or State Government or Union territory Administration or recognised research institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Statutory or autonomous organizations.</p> <p>Desirable:-</p> <p>(i) Bachelors' Degree in Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration from a recognised University.</p> <p>(ii) Diploma in Material Management from a recognised University or Institute.</p> <p>Note 1: Purchase Officer in the level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100/-) with six years of regular service in the grade and having the educational qualification and experience prescribed for deputationists is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post it shall be treated as having been filled by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.</p> <p>Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. S-11014/40/2018-HR]

VINOD KUMAR, Dy. Secy.